



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 1, 1983/पौष 11, 1904  
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 1, 1983/PAUSA 11, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन की रूप में  
रखा जा सके

separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

सं० 2/83-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1983

अधिसूचना

सां० कां० मि० 1(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम,  
1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,  
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 ए० 1) की पहली  
1144 GI/82

अनुसूची के मब सं० 6 के अंतर्गत आने वाले कच्चे नैफ्था को, जब उसका अमोनिया के विनिर्माण में प्रयोग किया जाना आशयित हो, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उतने उत्पाद शुल्क से, जो उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सेंटीग्रेड थर्मामीटर की 15 डिग्री पर प्रति किलोमीटर छबोस रुपए और पच्चीस पैसे की दर से संगणित रकम से अधिक है :

परंतु यह सब जब कि—

- (i) सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर के समाधान प्रद रूप में यह साबित हो जाता है कि ऐसे कच्चे नफ्था का इस प्रकार प्रयोग किया गया है।
- (ii) जहां ऐसा प्रयोग उत्पादन के कारखाने से अन्यत्र नहीं किया गया है तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 1944 के अध्याय 10 में उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन किया गया है।

2. यह अधिसूचना 31 मार्च, 1983 जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है प्रभावी रहेगी।

[सं० 2/83 के० उ० फा० सं० 83/12/82 सी एक्स 3]

राजेंद्र प्रसाद, अवर सचिव

# MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 1983.

No. 2/83-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 1(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts raw naphtha falling under Item No. 6 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of twenty-six rupees and twenty-five paise per kilo-

litre at fifteen degree of centigrade thermometer, when intended for use in the manufacture of ammonia :

Provided that—

- (i) it is proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Central Excise that such raw naptha has been so used; and
- (ii) where such use is elsewhere than in the factory of production, the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.

2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 31st day of March, 1983.

[No. 2/83-CL-F. No. 83/12/82-CX. 3]

RAJENDRA PRASAD, Under Secy.

